



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ 1940 (श0)
(सं0 पटना 219) पटना, मंगलवार 12 फरवरी 2019

सं० 1/ स्था० (1) 703/2010-457

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प

6 फरवरी 2019

विषय :- संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों (भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष) के मानदेय रू० 29,500/- (उन्नतीस हजार पाँच सौ) से बढ़ाकर रू० 65,000/- (पैसठ हजार) प्रतिमाह करने की स्वीकृति के संबंध में।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों को विभागीय आदेश ज्ञापांक- 859 दिनांक 04.03.2016 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से रू० 29,500/- (उन्नतीस हजार पाँच सौ) प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की घोर कमी के कारण जनहित/कार्यहित में संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों की संविदा अवधि विस्तार की गयी है।

3. राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमित पदाधिकारियों/कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ दिया जा चुका है। सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सकों (भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष) के भी मानदेय वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गयी।

4. सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या- 12534 दिनांक 17.09.2018 के परिशिष्ट- 'क' 2 (ख) एवं विभागीय संकल्प संख्या- 2401 दिनांक 18.07.2007 की कंडिका- 2 (4) के आलोक में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये

गये निर्णय के उपरांत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सकों (भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष) के मानदेय की राशि रू0 29,500/— (उन्नतीस हजार पाँच सौ) से बढ़ाकर रू0 65,000/— (पैंसठ हजार रुपये) प्रतिमाह आदेश निर्गत की तिथि से करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 219-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>